

दोहे रमेश के दिवाली पर

By : INVC Team Published On : 7 Nov, 2015 01:05 AM IST

दोहे

सर पर है दीपावली, सजे हुवे बाज़ार ! मांगे बच्चो की कई , मगर जेब लाचार !!

बच्चों की फरमाइशें, लगे टूटने खाब ! फुलझडियों के दाम भी, वाजिब नहीं जनाब !!

दिल जल रहा गरीब का, काँप रहे हैं हाथ ! कैसे दीपक अब जले , बिना तेल के साथ !!

बढ़ती नहीं पगार है, बढ़ जाते है भाव ! दिल के दिल में रह गये , बच्चों के सब चाव !!

कैसे अब अपने जलें, दीवाली के दीप ! काहे की दीपावली , तुम जो नहीं समीप !!

दुनिया में सब से बड़ा, मै ही लगूँ गरीब ! दीवाली पे इस दफा, तुम जो नहीं करीब !!

दीवाली में कौन अब , बाँटेगा उपहार ! तुम जब नहीं समीप तो, काहे का त्यौहार !!

आतिशबाजी का नहीं, करो दिखावा यार ! दीपों का त्यौहार है,..... सबको दे उपहार !!

पैसा भी पूरा लगे ,..... गंदा हो परिवेश ! आतिशबाजी से हुआ, किसका भला "रमेश" !!

संग शारदा मातु के, लक्ष्मी और गणेश ! दीवाली को पूजते, इनको सभी 'रमेश' !!

आपा बुरी बलाय है, करो न इसका गर्व ! सभी मनाओ साथ में , दीवाली का पर्व !!

हाथ हवाओं सहज ,... मैने आज मिलाय ! सबसे बड़ी मुंडेर पर, दीपक दिया जलाय !!

✘ परिचय :-

रमेश शर्मा

लेखक व कवि

बचपन राजस्थान के जिला अलवर के एक छोटे से गाँव में गुजरा , प्रारंभिक पढाई आठवीं तक वहीं हुई, बाद की पढाई मुंबई में हुई, १९८४ से मुंबई में एक प्राइवेट कम्पनी में नौकरी की शुरुआत की , बाद में नौकरी के साथ साथ टैक्स कन्सल्टन्ट का भी काम शुरू किया जो कि आज तक बरकरार है , बचपन से ही कविता सुनने का शौक था काका हाथरसी जी को बहुत चाव से सुनता था , आज भी उनकी कई कविता मुझे मुह जुबानी याद है बाद में मुंबई आने के बाद यह शौक

शायरी गजल की तरफ मुड़ गया , इनकम टैक्स का काम करता था तो मेरी मुलाकात जगजीत सिंह जी के शागिर्द घनशाम वासवानी जी से हुई उनका काम मैं आज भी देखता हूँ उनके साथ साथ कई बार जगजीत सिंह जी से मुलाकात हुई ,जगजीत जी के कई साजिंदों का काम आज भी देखता हूँ , वहीं से लिखने का शौक जगा जो धीरे धीरे दोहों की तरफ मुड़ गया दोहे में आप दो पंक्तियों में अपने जज्बात जाहिर कर सकते हैं और इसकी शुरुआत फेसबुक से हुई फेसबुक पर साहित्य जगत की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला

18/984,आश्रय को- ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड खेर नगर , बांद्रा (ईस्ट) मुंबई ४०००५१ ... फोन ९७०२९४४७४४ – ई-मेल. rameshsharma_123@yahoo.com

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/ramesh-couplets-on-diwali/>

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION



अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.